

प्रेस नोट दिनांक 04.11.2020 जनपद मेरठ

थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अन्तर्राज्य शातिर वाहन चोर अपने साथी सहित गिरफ्तार, चोरी की एक कार तथा नाजायज अस्लाह बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2020 को समय 22.30 बजे थाना ब्रहमपुरी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मोहद्वीनपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चैकिंग के दौरान दिल्ली की तरफ से दो गाडी आती दिखाई दी जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो गाडी में बैठे बदमाशो ने पुलिस पर गाडी चढाने की कोशिश की तथा भागने में एक गाडी पेड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई तथा बदमाश फायरिंग करते हुए दूसरी स्विफ्ट गाडी से भाग गये पुलिस द्वारा पीछा करने पर बिजली बम्बा बाईपास पर गाडी की घेराबन्दी की गई। पुलिस द्वारा घेराबन्दी करने पर कार मे बैठे बदमाशो ने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्यवाही मे दो बदमाश (साकिब व मौ0 सायम) घायल हो गये तथा 02 बदमाश फायरिंग करते हुये भागने मे सफल हो गये। मुठभेड़ के उपरान्त दो बदमाश को नाजायज अस्लाह, चोरी की स्विफ्ट कार के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तगण बेहद शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। जिनके विरुद्ध जनपद मेरठ तथा गाजियाबाद व दिल्ली आदि स्थानो पर लम्बा अपराधिक इतिहास है। साकिब उर्फ गद्दू थाना ब्रहमपुरी मेरठ, थाना लिसाडी गेट तथा नोएडा से वांछित हैं। अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पता:-

1. साकिब उर्फ गद्दू पुत्र कल्लू नि0 म0न0 84 ,गंज बजार थाना सदर बाजार जिला मेरठ
2. मौ0 सायम उर्फ कुतिया पुत्र अय्यूब नि0- सोती गंज, थाना- सदर बाजार, जिला- मेरठ

फरार अभियुक्तो के नाम पता:-

1. अजरुद्दीन उर्फ अज्जू पुत्र महबूब नि0 सोतीगज, थाना सदर बाजार, जिला - मेरठ
2. राशिद उर्फ काला पुत्र शोकिन नि0 समर गार्डन, थाना - लिसाडी गेट , जिला - मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

1. पिस्टल 32 बोर तथा एक तमन्चा 315 बोर तथा भारी मात्रा में खोखा व कारतूस बरामद
2. एक चोरी की स्विफ्ट वीडीडाई कार बिना नम्बर
3. एक गाडी वर्ना (क्षति ग्रस्त)

अपराधिक इतिहास

साकिब उर्फ गद्दू पुत्र कल्लू नि0 म0न0- 84 ,गंज बजार थाना सदर बाजार जिला मेरठ

1. मु0अ0स0- 710/20 धारा 307 भादवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ
2. मु0अ0स0- 711/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना ब्रहमपुरी मेरठ
3. मु0अ0स0 -712/20 धारा 411,414 भादवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ
4. एफआईआर न0 13398/20 धारा 379 भादवि थाना ई- पुलिस थाना एमवीथेप्ट क्राईम ब्रान्च दिल्ली
5. एफआईआर न0 42789/19 धारा 379 भादवि थाना ई- पुलिस थाना एमवीथेप्ट क्राईम ब्रान्च दिल्ली
6. मु0अ0स0 1605/20 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
7. मु0अ0स0 181/20 धारा 379/411/482 भादवि थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर (वांछित)
8. मु0अ0स0 404/20 धारा 420/467/468/471/411/414 भादवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ (वांछित पुरस्कार घोषित 25000/-)
9. मु0अ0स0 868/18 धारा 411,414,420 भादवि थाना लिसाडी गेट मेरठ (वांछित)

मौ0 सायम उर्फ कुतिया पुत्र अय्यूब नि0- सोती गंज, थाना- सदर बाजार, जिला- मेरठ

1. मु0अ0स0- 710/20 धारा 307 भादवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ
2. मु0अ0स0 -712/20 धारा 411,414 भादवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ
3. मु0अ0स0- 713/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना ब्रहमपुरी मेरठ

थाना जानी मेरठ पुलिस द्वारा चोरी की मोसा0 व अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये गये अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना जानी के नेतृत्व में जानी पुलिस ने चैकिंग व गस्त के दौरान व0उ0नि0 सुखपाल सिंह मय है0का0 743 ओमकार सिंह मय का0 1458 सुधीर कुमार के द्वारा आज दिनांक 04.11.2020 समय करीब 10.00 बजे जानी नहर पुल से अभियुक्त अकील पुत्र इकलाख उर्फ लाखा उम्र 30 वर्ष नि0 जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ को चोरी की मोसा0 नं0 UP15 CP 0969 मय एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जानी पर मु0अ0स0 406/20 धारा 411/414 भादवि व मु0अ0सं0 407/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता

- अकील पुत्र इकलाख उर्फ लाखा निवासी जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर
2. एक मोसा0 नं0 UP15 CP 0969 स्पलेण्डर चोरी की

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल सिंह थाना जानी जनपद मेरठ
2. व0उ0नि0 सुखापल सिंह थाना जानी जनपद मेरठ
3. है0का0 743 ओमकार सिंह थाना जानी जनपद मेरठ
4. का0 1458 सुधीर कुमार थाना जानी मेरठ

थाना सरधना पुलिस द्वारा



आज दिनांक 04.11.2020 को चैकिंग/अभियान के तहत वारन्टी शहजाद पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला धर्मपुरा कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ सम्बन्धित वारन्ट ST-766/09 u/s 302,394,411 ipc थाना सरधना को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभि० शहजाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरधना पर मु०अ०सं० 513/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया तथा अभि० वसीम काना पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ को दो किलो 300 ग्राम डोडा चूर्ण एवं एक अदद मोटर साईकिल रंग लाल न० DL 13SG-5662 सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे मु०अ०सं० 514/20 धारा 18/20 NDPS ACT व मु०अ०सं० 515/20 धारा 414 भादवि पंजीकृत किये गये । दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण शहजाद व वसीम काना को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा



मु0अ0सं0 - 314/ 2020 धारा -354/ 504/ 506 आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम एवं मु0अ0सं0 316 / 2020 धारा- 452/323/307/504/506 आईपीसी में वांछित चल रहे अभियुक्त- आकाश उर्फ कैल्शियम पुत्र संजय उर्फ पप्पू निवासी कस्बा करनावल थाना सरूरपुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद हुआ । अभियुक्त के विरुद्ध आम्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नौचन्दी पुलिस द्वारा पटेल मंडप के गेट से 20 कदम की दूरी पर से अभियुक्त अमित पुत्र कृष्णपाल नि0 भटीपुरा थाना किठौर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

अवैध मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नौचन्दी पुलिस द्वारा पटेल मंडप के गेट से 20 कदम की दूरी से अभियुक्त अमित पुत्र कृष्णपाल नि0 भटीपुरा थाना किठौर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम नशीला पदार्थ एलजापोरम बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सदरबाजार पुलिस द्वारा फब्बारा चैक आबूलैन के पास से अभियुक्त गुरप्रीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह नि0 सनराइज एन्क्लेव ग्राउण्ड फ्लौर थाना पल्लवपुरम मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा तांगेवाली गली खत्ता रोड से अभियुक्त वसीम पुत्र हनीफ नि0 खजूर का पेड ग0नं0 3 मजीदनगर थाना लिसाडीगेट मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते पकडा जाना जिसके कब्जे से पर्चा सट्टा, पैन्सिल व 790 रुपये नगद बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

Meerut Police